

V8.013752
16/2/04

भारत सरकार, मुद्रणालय.....
विभाग.....

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

प्रकाशक वित्त



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. — 500

KM — 30

Deft — 250

CPS — 220

सं. 46]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 29, 2004/माघ 9, 1925

No. 46]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2004/MAGHA 9, 1925

पूरा किया

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2004

सं. 11/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 84(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 कर 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निर्देश देती है कि नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के तदेन वित्त तथा कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में से प्रत्येक को, यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में और संशोधित किया जायेगा।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	56/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 14 नवम्बर, 2002	<p>उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में, खंड (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-</p> <p>‘(ख) ऐसे औद्योगिक एकक, जो कि 14 जून से पहले विद्यमान थे, लेकिन जिन्होंने,-</p> <p>(i) 14 जून, 2002 को या उसके पश्चात 25 प्रतिशत से अनधिक की स्थापित क्षमता में वृद्धि के रूप में सारवान विस्तार किया है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने उक्त तारीख को, या उसके पश्चात नया निवेश किया, और ऐसे नये निवेश के कारणवश आधार रोजगार सीमा से कम से कम 25 प्रतिशत या उससे अधिक अतिरिक्त स्थायी रोजगार पैदा हुआ, इन शर्तों पर कि,-</p> <p>(1) छूट प्राप्त करने के पश्चात इकाई स्थायी रोजगार में कमी नहीं करेगी। अगर स्थायी रोजगार आधार रोजगार सीमा के एक सौ पच्चीस प्रतिशत से कम हो जाता</p>

(1)	(2)	(3)
		<p>है, तो उक्त इकाई को भविष्य में छूट लेने से वर्जित किया जायेगा। हालांकि ऐसी औद्योगिक इकाई द्वारा रोजगार कम करने से पहले दी गई छूट की वसूली नहीं की जायेगी।</p> <p>(2) विनिर्माता, संबंधित जिला औद्योगिक केन्द्र के महाप्रबंधक से, इस आशय का प्रमाण पत्र अधिकार क्षेत्र के, यथास्थिति, उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, को प्रस्तुत करेगा कि उक्त इकाई द्वारा ऐसा अतिरिक्त रोजगार पैदा किया गया है।”</p> <p>स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,-</p> <p>(क) “आधार रोजगार सीमा” का तात्पर्य है कि पिछले पांच वर्षों में किसी भी समय अधिकतम स्थायी कर्मचारियों की संबंधित औद्योगिक इकाई में संख्या;</p> <p>(ख) संबंधित औद्योगिक इकाई की “स्थायी रोजगार” में दैनिक वेतन भोगी या अस्थायी कर्मचारियों की संख्या सम्मिलित नहीं की जायेगी;</p> <p>(ग) “नया निवेश” में ऐसा निवेश सम्मिलित नहीं होगा जो कि पुराने कर्ज चुकाने के लिए या 14 जून, 2002 से पहले स्थापित प्लांट और मशीनरी के खरीदने हेतु या कर्मचारियों का वेतन देने हेतु प्रयोग किया गया है।”।</p>
2.	57/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 14 नवम्बर, 2001	<p>उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में, खंड (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-</p> <p>‘(ख) ऐसे औद्योगिक एकक, जो कि 14 जून से पहले विद्यमान थे, लेकिन जिन्होंने,-</p> <p>(i) 14 जून, 2002 को या उसके पश्चात 25 प्रतिशत से अनधिक की स्थापित क्षमता में वृद्धि के रूप में सारवान विस्तार किया है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने उक्त तारीख को, या उसके पश्चात नया निवेश किया, और ऐसे नये निवेश के कारणवश आधार रोजगार सीमा से कम से कम 25 प्रतिशत या उससे अधिक अतिरिक्त स्थायी रोजगार पैदा हुआ, इन शर्तों पर कि,-</p> <p>(1) छूट प्राप्त करने के पश्चात इकाई स्थायी रोजगार में कमी नहीं करेगी। अगर स्थायी रोजगार आधार रोजगार सीमा के एक सौ पच्चीस प्रतिशत से कम हो जाता है, तो उक्त इकाई को भविष्य में छूट लेने से वर्जित किया जायेगा। हालांकि ऐसी औद्योगिक इकाई द्वारा रोजगार कम करने से पहले दी गई छूट की वसूली नहीं की जायेगी।</p> <p>(2) विनिर्माता, संबंधित जिला औद्योगिक केन्द्र के महाप्रबंधक से, इस आशय का प्रमाण पत्र अधिकार क्षेत्र के, यथास्थिति, उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सहायक उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, को प्रस्तुत करेगा कि उक्त इकाई द्वारा ऐसा अतिरिक्त रोजगार पैदा किया गया है।”</p> <p>स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,-</p> <p>(क) “आधार रोजगार सीमा” का तात्पर्य है कि पिछले पांच वर्षों में किसी भी समय अधिकतम स्थायी कर्मचारियों की संबंधित औद्योगिक इकाई में संख्या;</p> <p>(ख) संबंधित औद्योगिक इकाई की “स्थायी रोजगार” में दैनिक वेतन भोगी या अस्थायी कर्मचारियों की संख्या सम्मिलित नहीं की जायेगी;</p> <p>(ग) “नया निवेश” में ऐसा निवेश सम्मिलित नहीं होगा जो कि पुराना कर्ज चुकाने के लिए या 14 जून, 2002 से पहले स्थापित प्लांट और मशीनरी के खरीदने हेतु या कर्मचारियों का वेतन देने हेतु प्रयोग किया गया है।”।</p>

टिप्पणः 1. मूल अधिसूचना सं० 56/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 14 नवम्बर, 2002 [सा० का० नि० 764 (अ), तारीख 14 नवम्बर, 2002] द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 79/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 22 दिसम्बर, 2003 [सा० का० नि० 962 (अ) तारीख 22 दिसम्बर, 2003] द्वारा किया गया था।

2. मूल अधिसूचना सं० 5/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 14 नवम्बर, 2002 [सा० का० नि० 765 (अ), तारीख 14 नवम्बर, 2002] द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 65/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 6 अगस्त, 2003 [सा० का० नि० 639 (अ) तारीख 6 अगस्त, 2003] द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2004

No. 11/2004-CENTRAL EXCISE

G. S. R. 84(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be further amended, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No	Notification No. and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1	56/2002-Central Excise, dated the 14 th November, 2002.	<p>In the said notification, in para 3, for clause (b) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-</p> <p>“(b) Industrial units existing before the 14th day of June 2002, but which have,-</p> <p>(i) undertaken substantial expansion by way of increase in installed capacity by not less than twenty-five per cent. on or after the 14th day of June, 2002; or</p> <p>(ii) made new investments on or after the 14th day of June 2002, and such new investment is directly attributable to the generation of additional regular employment of not less than twenty-five per cent. over and above the base employment limit, subject to the conditions that,-</p> <p>(1) the unit shall not reduce regular employment after claiming exemption, and once such employment is reduced below one hundred and twenty-five per cent. of the base employment limit, such industrial unit shall be debarred from claiming the exemption contained in this notification in future. However, the exemption availed by such industrial unit, prior to such reduction, shall not be recoverable from such industrial unit.</p> <p>(2) the manufacturer shall produce a certificate, from General Manager of the concerned District Industries Centre to the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, to the effect that the unit has created such additional regular employment.</p> <p><i>Explanation :</i> for the purposes of this notification,-</p> <p>(a) “base employment limit” means maximum number of regular employees employed at any point of time, by the concerned industrial unit, during last five years;</p> <p>(b) “regular employment” shall not include employment provided by the industrial unit to daily wagers or casual employees;</p> <p>(c) “new investment” shall not include investments which are used for paying off old debts or making payments for the plant or machinery installed prior to the 14th day of June 2002, or paying salaries to the employees.”</p>

2	57/2002-Central Excise dated the 14 th November, 2002.	<p>In the said notification, in para 3,-</p> <p>(i) clause (c) shall be re-lettered as clause “(a)” thereof;</p> <p>(ii) for clause (d) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-</p> <p>‘(b) Industrial units existing before the 14th day of June 2002, but which have,-</p> <p>(i) undertaken substantial expansion by way of increase in installed capacity by not less than twenty-five per cent. on or after the 14th day of June, 2002; or</p> <p>(ii) made new investments on or after the 14th day of June 2002, and such new investment is directly attributable to the generation of additional regular employment of not less than twenty-five per cent. over and above the base employment limit, subject to the conditions that,-</p> <p>(1) the unit shall not reduce regular employment after claiming exemption, and once such employment is reduced below one hundred and twenty-five per cent. of the base employment limit, such industrial unit shall be debarred from claiming the exemption contained in this notification in future. However, the exemption availed by such industrial unit, prior to such reduction, shall not be recoverable from such industrial unit.</p> <p>(2) the manufacturer shall produce a certificate, from General Manager of the concerned District Industries Centre to the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, to the effect that the unit has created such additional regular employment.</p> <p><i>Explanation :</i> for the purposes of this notification,-</p> <p>(a) “base employment limit” means maximum number of regular employees employed at any point of time, by the concerned industrial unit, during last five years;</p> <p>(b) “regular employment” shall not include employment provided by the industrial unit to daily wagers or casual employees;</p> <p>(c) “new investment” shall not include investments which are used for paying off old debts or making payments for the plant or machinery installed prior to the 14th day of June 2002, or paying salaries to the employees.’</p>
---	---	---

[F. No. 354/173/2000-TRU]

G. S. KARKI, Under Secy.

Footnote :

(1) The principal notification No.56/2002-Central Excise, dated the 14th November, 2002 was published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 764 (E), dated the 14th November, 2002 and was last amended by notification No. 79/2003-Central Excise, dated the 22nd December, 2003, [G.S.R. 962 (E), dated the 22nd December, 2003]

(2) The principal notification No.57/2002-Central Excise, dated the 14th November, 2002 was published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 765 (E), dated the 14th November, 2002 and was last amended by notification No. 65/2003-Central Excise, dated the 6th August, 2003, [G.S.R. 639(E), dated the 6th August, 2003]